

भा.कृ.अ.संस्थान (पूसा) कृषक पुरस्कार 2020

व्यावहारिक कृषि प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों को विकसित और प्रसारित करने वाले प्रतिभावान कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए पूसा संस्थान ने हर वर्ष की भाँति आगामी पूसा कृषि विज्ञान मेले में लगभग 20-25 उन्नतशील किसानों को **भाकृअसं-नवोन्मेषी किसान** और **भाकृअसं-अध्येता किसान** पुरस्कारों से सम्मानित करने का निर्णय किया है। यह मेला मार्च 2020 के प्रथम पखवाड़े में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार हेतु चयनित किसानों को मेले में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आने-जाने का किराया (अधिकतम सेकंड एसी ट्रेन अथवा बस के किराए के बराबर) और मेले के दौरान संस्थान में रहने-खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार भली-भाँति भरा एवं निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्र अधिकतम 25 जनवरी 2020 तक निम्न पते पर प्राप्त होना चाहिए:

डॉ. जे.पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रसार),

भा.कृ.अनु.सं, नई दिल्ली-110012 (ईमेल: jd_extn@iari.res.in, फोन: 011-25842387)

महत्वपूर्ण निर्देश:

- अनुशंसा प्राधिकारी: भा.कृ.अनु.परिषद के संस्थानों के निदेशक / राज्य कृषि वि.वि. के कुलपति या निदेशक प्रसार या निदेशक अनुसंधान / निदेशक, अटारी / कृषि उत्पादन आयुक्त या सचिव / राज्य सरकार के कृषि या बागवानी या पशुपालन या मात्स्यिकी या रेशम विभाग के निदेशक / अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र / प्रबंधन निदेशक, प्राइवेट कंपनियाँ / अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्थान।
- उपरोक्त प्राधिकारी अपने कार्यक्षेत्र से योग्य किसानों के लिए प्रपत्र के अनुसार भरा हुआ, साक्ष्यांकित दस्तावेजों सहित नामांकन (ईमेल अथवा हार्ड कॉपी) भेज या अग्रेषित कर सकते हैं।
- किसान अपना आवेदन स्वयं भी डाक या कूरियर से भेज सकते हैं, बशर्ते वह उक्त अधिकारी द्वारा अनुशंसित हो।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-अध्येता/नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2020
आवेदन पत्र

1. पुरस्कार का नाम: भाकृअसं अध्येता 2020 / भाकृअसं नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2020
2. आवेदक का नाम:
3. वैवाहिक स्थिति एवं लिंग:
4. जन्म स्थान एवं जन्म तिथि:
5. पत्राचार पता:
6. शैक्षणिक योग्यता:
7. किसान के अपने या लीज पर लिए गए संसाधन:
(क) भूमि (हेक्टेयर)
(ख) सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)
(ग) सिंचाई क्षमता वाले जल निकाय
(घ) मछली और कुक्कुट सहित पशु संसाधन
(ङ) फार्म मशीनरी
8. कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी (किस्म / नस्ल के साथ-साथ क्षेत्रफल/संख्या)
(क) अनाज फसलें
(ख) बागवानी वृक्ष
(ग) कृषि वानिकी
(घ) डेयरी /पोल्टी / मत्स्य पालन / बतख पालन / सूकर पालन
(ङ) कोई अन्य
9. नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियाँ / वैज्ञानिक तरीके (संक्षिप्त विवरण)
(क) अपनाए हैं
(ख) उनमें सुधार या बदलाव किया है
(ग) विकसित किया है (या कोई अन्य जानकारी)
10. आय, लागत-लाभ अनुपात, सकल और शुद्ध आय (कार्य या उद्यम के अनुसार)
(क) फसलें (प्रति हेक्टेयर)
(ख) बागवानी फसलें (प्रति हेक्टेयर)
(ग) पशु पालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन, रेशम इत्यादि जैसे उद्यम
(घ) कोई अन्य
11. अन्य साथी किसानों के बीच नई तकनीकियों का प्रसार (संक्षिप्त विवरण)
12. आवेदक किसान का योगदान निम्न संदर्भ में
(क) कृषि के नए तौर तरीकों / प्रबंधन की रणनीति
(ख) संसाधनों / अन्य इनपुट की बचत
(घ) कोई अन्य
13. कोई अन्य संबंधित जानकारी
(क) मीडिया कवरेज जैसे सफलता की कहानियाँ / समाचार लेख / वृत्तचित्र / सीडी इत्यादि के रूप में
(ख) ब्लॉक/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण-पत्र, पदक और पुरस्कार के रूप में सम्मान आदि

पासपोर्ट आकार का
अच्छा फोटो लगाएँ

(किसान के हस्ताक्षर)

संस्तुति - भा.कृ.अनु.परिषद के संस्थानों के निदेशक / राज्य कृषि वि.वि. के कुलपति या निदेशक प्रसार या निदेशक अनुसंधान / निदेशक, अटारी / कृषि उत्पादन आयुक्त या सचिव / राज्य सरकार के कृषि या बागवानी या पशुपालन या मात्स्यिकी या रेशम विभाग के निदेशक / अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र / प्रबंधन निदेशक, प्राइवेट कंपनियाँ / अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्थान।

(अनुशंसा अधिकारी/पूर्ण पदनाम के साथ हस्ताक्षर)